

Refer: MSL/BSE/NSE/

May 31, 2024

BSE Limited 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 Scrip Code: **523371** 

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Scrip Code: MAWANASUG

<u>Sub.: Advertisement of Notice in Newspaper for updating E-mail Address and other information for the 60th Annual General Meeting of the Company</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copy of the Advertisement published on 31.05.2024 for updating E-mail Address and other information for the 60th Annual General Meeting of the Company in Business Standard newspaper in English (all edition) and Business Standard newspaper in Hindi (Delhi edition).

You are requested to take the above information on records.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Mawana Sugars Limited

(ASHOK KUMAR SHUKLA) COMPANY SECRETARY

Enc: a/a

MAWANA SUGARS LIMITED CIN: L74100DL1961PLC003413 Corporate Office:

Plot No. 03, Institutional Area Sector-32, Gurugram-122 001 (India) T 91-124-4298000 F 91-124-4298300 Registered Office: 5th Floor, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place New Delhi-110125 (India) T 91-11-25739103 F 91-11-25743659



# **Biggest gold ETFs lose** bit of glitter this year

See \$3.9 bn outflow in 5 months

New Delhi, 30 May

he world's largest gold exchange-traded funds (ETFs) by assets under management (AUM) GDX, Vaneck Vectors Gold Miners ETF (\$13.26 billion), and GLD, SPDR Gold Trust ETF (\$61.71 billion), have seen a net outflow of \$3.95 billion year to date (CYTD), S&P Global Market Intelligence said in a recent note. Both these funds, it said, managed positive flows only during two of the first five months of the year.

"After expanding the universe of ETFs investing in gold, a majority of funds have been experiencing a similar trend, with sizable outflows being seen since the beginning of the year. Net flows across the following six funds have totalled \$4.96 billion since the beginning of 2024 (till May 24, 2024)," the S&P Global Market Intelligence note said.

In the January to March 2024 quarter, meanwhile, World Gold Council (WGC) said, global gold ETFs saw an eighth consecutive quarter of outflows. Despite a 114 tonne, or 4 per cent drop in ETF holdings to 3,113 tonnes during this period, the AUM (in \$ terms), WGC said, rose to their highest for almost two years at \$222 billion during the recently concluded quarter, thanks to gold's strong price performance.

At a regional level, US-and European-listed ETFs both saw a 4 per cent fall in holdings.

"ETF demand remains notable by its absence, particularly in Europe - where, anecdotally, institutions refusing to hold negative yielding bonds shifted into gold a few years ago. It seems likely that the past year has seen a cashing out of gold back into positive yielding bonds, and this might become harder to sustain if and when policy rates are cut. The US has shown a glimmer of hope during April, but rate cuts might be needed to help trigger sustained inflows. Sticky inflation and labour market strength suggest there will be a bit of a wait," WGC said. On the other hand, gold prices have seen a rise in the past few months amid steady demand, especially from the global central banks. This demand surge, S&P Global Market Intelligence said, has mostly been triggered by geopolitical developments and growing uncertainty regarding inflationary trends seen across several economies. This, in turn, has seen gold prices rise nearly 13 per cent CYTD.

"As central banks embark upon a period of interest rate divergence, investors can also expect to see growing volatility in currency markets. As interest rates move, currencies either strengthen or weaken, and gold is often used as a hedge against this risk. This may explain why ETF buyers may not be too enthusiastic about its recent increase in valuation, as when coupled with the lack of periodic cash flows, higher than average management fees, and the fact that gold has little industrial value





(unlike silver), the commodity is likely to remain less attractive for retail portfolios," the note said. Central bank's net demand for gold globally, according to a WGC report, hit 290 tonnes in the January to March 2024 quarter, up 1 per cent as compared to 286.2 tonnes in the previous corresponding period. This was the strongest start to any calendar year on record, WGC said.

Gold buying by central banks in the March 2024 quarter was 69 per cent higher than the five-year quarterly average (171 tonnes). Reported purchases remained broad-based, with China, Turkey, and India leading the way. According to Commodity Futures Trading Commission data, S&P Global Market Intelligence said, hedge funds and other large speculators have been increasing their net-long positions in Comex futures and options after buying 21,030 contracts during the week ending May 21.

Despite the interest being shown by hedge funds and other large speculators, the overall activity across gold ETFs remains muted.



# Savvy investors with high risk appetite may opt for quant funds

#### SARBAJEET K SEN

Among the various ways of picking stocks, one is to screen them using quantitative criteria. If you do not have the time or skill to do so, there are mutual fund schemes to help you, technically called 'quant funds' or quantitative funds. SBI Mutual Fund (MF) and Motilal Oswal MF are expected to unveil their offerings soon. Eight funds in this category currently have assets under management worth ₹5,471.6 crore.

#### Data-driven approach

Quant funds use a rule-based approach for portfolio construction based on quantitative models. The model selects stocks from a predefined universe without any human intervention. "Quant investing is primarily data-driven investing. Historical market data is interpreted to make investment decisions. Unlike other funds, they do not focus on fundamental stock-specific research, nor analyse company financials to create a portfolio," says Sukanya Ghosh, quant analyst, SBI Mutual Fund. The eight quant schemes in the market show a wide range of returns, highlighting the variance in their quantitative models.

Many variables employed

Fund/Benchmark

Tata Quant Fund

DSP Quant Fund

Nifty 200 TRI

Quant Quantamental Fund

Nippon India Quant Fund

ICICI Prudential Quant Fund

# A quantitative model typically

TWO FUNDS HAVE BEATEN INDEX

Returns for regular, growth plans. Returns above 1 year are compound annualised. Funds

with at least 3-year record included. Nippon India Quant Fund has earned 19.8% over five years and 13.9% over 10 years. Others have shorter track records.

Data as on May 29, 2024 Source: Navigation 6

OVER THREE-YEAR HORIZON

#### considers multiple variables, including quantifiable factors like quality, growth, momentum, valuation, and macro factors such as investor sentiment, volatility, and money flow. The portfolio is rebalanced at regular intervals. "Quant funds gather extensive historical and realtime data, including market prices, financial statements, economic indicators, and even nontraditional data sources like social media sentiment," says Pratik Oswal, head of passive funds, Motilal Oswal Asset

#### No fund manager risk

Returns (%) ■1-year ■3-year

Quant funds eliminate the risk of fund manager decisions going wrong. "They are free of emotions and human biases. Systematic investment brings discipline and prevents emotional decisions," says Utpal Sarna, head of business analytics, Tata Asset Management.

### For seasoned investors

irrelevant.

Less fleet-footed

These data-driven funds may

struggle to quickly adapt to a

rapidly changing environment.

"Quant funds are mandated to

churn or trade only at specific

times. Hence, they find it diffi-

cult to react quickly to sudden

data can limit their adaptability

to new market conditions. Also,

'overfitting' is a common risk

where models perform well on

historical data but poorly in live

markets, leading to suboptimal

returns," says Oswal. A quant-

based approach may find it dif-

ficult to spot turnaround stories ahead of the market. This

approach may also not work

with smaller-sized companies

with inadequate disclosures.

Their models, if not tweaked

periodically, could become

"The reliance on historical

market changes," says Sarna.

Quant funds are ideal for sophisticated investors. "They are suitable for investors who understand financial markets well. says Oswal. Ghosh says these funds are ideal for investors keen to diversify their investments to rule-based strategies along with existing investments in active funds. Investors who choose quant funds should be prepared for volatility and drawdowns.

Quant funds are for investors with higher risk tolerance. The potential for high returns comes with the possibility of significant losses," says Oswal. Investors building a satellite portfolio may allocate up to 10 per cent of their equity portfolio to these schemes through systematic investment plans.

# How to tell if the call you got from a 'government official' is genuine

To deal with growing instances of phone-based frauds where scamsters impersonate government officials, the Centre has allocated a special 10-digit number series with the prefix '160'. These numbers will be used by government agencies, regulatory bodies, and financial institutions to communicate with the public.

Read full report here: mybs.ln/2dVxQmm

#### Govtagencies and regulators The new 160-prefixed 10-digit numbers to be used by Isitagenuinecall?

government departments and agencies will be in the from someone claiming for Delhi, 22 for Mumbai, and so on). 'C' will show the telecom

'1600ABCXXX' format. Here, 'AB' will be the telecom circle code (11 operator's code, and XXX will be digits between 0 and 9.

#### FINANCIAL INSTITUTIONS

For financial institutions, the number issued will be in the '1601ABCXXX' format, differing from government-related ones only in the placement of the digit '1' instead of '0' in the fourth position.

COMPILED BY NISHA ANAND

# MAWANA SUGARS LIMITED

CIN: L74100DL1961PLC003413 ered Office : 5° Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110 125

NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and September 25. 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars" and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 SEBNHODDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13,2022, SEBNHO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and September 25, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 60th AGM of the Company will be held on Saturday, 6th July, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through VC/OAVM, Hence, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 60th AGM along with the Annual Report for FY 2023-2024 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting.

Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

Physical Holding Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.mawanasugars.com under www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at corporate@mawanasugars.com

Demat Holding Please contact your DP and register your email address and bank account details as per the process advised by DP.

### E-voting Information

The Company will provide its shareholders with a facility for remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's vebsite viz. www.mawanasugars.com.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on Company's website www.mawanasugars.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com.
Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company

Please note that as per SEBI circular dated 03/11/2021 and dated 16/03/2023, al dividend will be paid only in electronic mode. If you have not updated your bank details, please update the same on or before 29/06/2024. If you are holding shares in physical mode, please send your bank details by filling ISR-1 with original cancelled cheque to RTA. If you are holding shares in demat mode, please update your bank detail with your DP.

For Mawana Sugars Limited (Ashok Kumar Shukla)

Company Secretary ACS: 29673 Dated: 30.05.2024

#### हिन्दस्तान कॉपर लिमिटेड HINDUSTAN COPPER LIMITED www.hindustancopper.com Tender No.MSTC/ERO/HINDUSTAN COPPER LTD/1/

KOLKATA/24-25/2797, Dated: 24th May 2024

For Re-opening & Expansion of Rakha Copper Mine, Development & Operations of Underground Mine at Chapri and Commissioning of matching capacity new concentrator plant at Rakha, Jharkhand through Revenue Sharing model. Bid Due Date: Last date of Bid submission: 23rd July, 2024 15.00 hrs. IST

# WOCKHARDT LIFE WOCKHARDT LIMITED

Telephone: 91-240-6694444: Fax: 91-240-2489219 Mumbai - 400 051; CIN: L24230MH1999PLC120720 Email: investorrelations@wockhardt.com; Website: www.wockhardt.com

#### INFORMATION REGARDING THE 25" ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

This is to inform you that, pursuant to the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure equirements) Regulations, 2015 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 and all other circulars ssued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, if any ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") the 25" Annual General Meeting ('AGM') of Wockhardt Limited (the Company) has been convened to be held through two-way Video Conferencing ('VC') facility/other audio visual means ('OAVM') on Friday, June 28, 2024 at 11:00 am (IST).

The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL'), fo providing VC/OAVM and e-Voting facility to enable the Members to attend the AGM and cast their vote electronically on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The Members who casts their vote by remote e-Voting prior to the AGM, can also participate in the AGM through VC/OAVM but will not be entitled to cast their vote again. Facility for e-Voting during the AGM will be made available to those Members who attend the AGM and have not cast their vote. The detailed procedure for e-Voting and attendance through VC will be provided in the Notice of the AGM

Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in facility/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section

25" AGM, will be made available on the website of the Company at www.wockhardt.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com Additionally, the same will also be available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock

As per MCA Circulars and SEBI circulars, the Notice of the AGM along with the Annua Report 2023-24 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (Registrar)/Depositories. Hence, no physical copies of the same will be sent to th

In view of the above, those Members who have not yet registered their e-mai addresses, can temporarily register the same directly with the Company, for the purpose of receiving the Annual Report for the Financial Year 2023-24 and the Notice of the ensuing AGM, by writing to us at investorrelations@wockhardt.com at the earliest along with necessary details such as Name (of all the holders), Folio No.s / DP ID and Client ID, mobile number, residential address (along with a self-attested copy of the proof of address) and a self-attested copy of the PAN card (of all the holders).

This notice is issued for information and benefit of the Members of the Company is compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai

Date: May 29, 2024

APPOINTMENT OF MINE DEVELOPER CUM OPERATOR (MDO)



# Registered Office: D-4 MIDC. Chikalthana, Aurangabad - 431 006

the 25° AGM of the Company in-person. Members attending the meeting through VC 103 of the Companies Act, 2013.

A copy of the Annual Report for the Financial Year 2023-24 and the Notice of th Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

For Wockhardt Limited

Rashmi Mamtura Company Secretary

red Office: DD-30, Sector 1, Salt Lake City, Kolkata - 700 064 felephone no- 033-40190000, Fax:033-40190001, Email: secretarial@tantfagroup.com, Website: www.ta

If you receive a call

to be a government

fraud call.

official but the phone

number does not start

with '160', it might be a

Extract of Audited Financial Results for the Quarter ended 31st March, 2024

		Standalone			Consolidated	(Rs. in Lakhs)
Particulars	Three months ended 31- March-24 (Audited)	Three months ended 31- March-23 (Audited)	Year ended 31-Mar-24 (Audited)	Three months ended 31-March- 24 (Audited)	Three months ended 31- March-23 (Audited)	Year ended 31-Mar-24 (Audited)
Total Income from Operations (Net)	2,266	4,258	5,305	2,266	9,386	5,305
Profit/(loss) from ordinary activities before Tax	(1,091)	3,240	3,839	(1,117)	(241)	(1,816)
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after Tax	5,474	2,827	8,994	(1,523)	(241)	(2,222)
Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period (Net of Tax)	5,482	2,827	9,002	(1,531)	(241)	(2,214)
Paid-up equity share capital (Face value of shares have been reduced from Rs. 10/- to Rs.1/- from 16.10.2023	1,550	287	1,550	1,550	287	1,550
Earning per share (Basic & Diluted) (Face value of shares have been reduced from Rs. 10/- to Rs. 1/- from 16.10.2023	3.54	9.84	5.81	(0.99)	(0.84)	(1.43)

The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the stock Exchange websit w.bseindia.com and www.nseindia.com) and the company website (www.tantiagroup.com)

Tarun Chaturved Executive Directo

DIN: 02309045

Date: 29th May, 2024 Place: Kolkata

# HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

CIN:L74899DL1988PL031191 B-2/8, Safdarjung Enclave, Delhi -110029, Tel 41650347, Fax no. 011-26191358, Email ID: info@bagla-group.com, Website: www.bagla-group.com

Extract of Standalone & Consolidated Financial Results for the year ended on 31" March, 2024

			NO. I CON	Standalone	room soom	-01			Consolidated	1	31-03-23 Audited 32,503 583		
S.	Particulars	Quarter Ended		Year Ende	d	- 8	Quarter Ende	d	Year Ende	d			
No.		31-03-24	31-12-23	31-03-23	31-03-24	31-03-23	31-03-24	31-12-23	31-03-23	31-03-24	31-03-23		
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited		
Г	Total Income from operations (net)	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503		
2	Net Profit / (Loss) for the period				S	2				S			
	(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax				7.77								
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax		50.00	1000	10000		0.00	Constitution of the second	360	S			
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	376	455	103	1,641	487	376	455	103	1,641	487		
5	Total Comprehensive Income for the period												
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	100.000		20000	2007903000								
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	376	455	103	1,641	487							
6	Equity Share Capital	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown					8 0							
	in the Audited Balance Sheet of Previous Year)			-	-		1 -		-				
8	Earnings per share (of Rs.10/-each)												
	(for continuing and discontinued operations):												
	(a) Basic	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51		
	(b) Diluted	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51		

Place: Delhi

Date: 30-05-2024

The Standalone results for the quarter and year ended 31 March 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting

The figures of the last quarter that ended 31° March 2024 and corresponding quarter that ended 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full

financial year and published year-to-date figures up to the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review by the statutory auditors. These Standalone results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the relevant rules issued thereunder, other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

> (Amit Kumar) Director

M. S. Bagla Managing Director DIN-01425646

DIN-06902856

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mr. Anoop Vijaykumar with registered office at X-198, Regency Park-II, DLF Phase 4, Sector - 27, Galleria, Gurgaon, Haryana - 122002, registered with SEBI under SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013 as an Individual Investment Adviser vide INA100009293 is surrendering his Investment Advisor license to SEBI. In view of the same, any aggrieved party may make any representation against the surrender before SEBI at scores.sebi.gov.in or smartodr.in

#### कार्यालय पता में बदलाव हेतु सूचना गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CIN: U65922PN2004PLC208751 GRIHUM पंजीकृत कार्यालयः 602, छतवी चेपिल, जीरी वन आईटी चर्क, सर्वे नं, 79/1, योरपडी, मुंडवारी पुगे-411036, महाराष्ट्र, **वेक्साइट: www.gritmuhousing.com टेली:** 020 678080

हमारे सभी ग्राहकों, पॉलिसी धारकों तथा जन साधारण को एतदद्वारा बढ़े पैमाने पर सुचना र्य जाती है कि लक्ष्मी नगर (दिल्ली) रिधत शाखा को यहां नीचे उल्लेखित इसके वर्तमान पते र स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किसी भी तरह के पंचाचार के बिए वर्तमान पता इस सचना की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

कार्यालय का पुराना पता	कार्यालय का नया पता
यूनिट नं, 911, नीवीं मंजिल, कट्स टावर प्लॉट नं, 7, लक्ष्मी नगर, क्रिस्ट्रिक्ट सेंटर, निर्माण विहार मेट्टो स्टेशन के निकट, गई दिल्ली-110092	यूनिट नं. 607 एवं 608, छठवीं मंजिल, सागर प्लाजा, प्लॉट नं. 19, क्रिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर-विल्ली-110092

किसी भी व्यक्ति के पास इस शाखा के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न अथवा अनसुलझी समस्या । तो वे ऊपर उल्लेखित नए पते पर सम्पर्क कर सकते हैं अधवा आप हमसे +91-1800-266-3204 (टोल फ्री) अथना ईमेलः customercare@grihumhousing.com पर सम्पर्क करें



# विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकरक्वायर, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009

CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं : 0124-4065500 वेबसाइट: www.vipulgroup.in

₩.	विवरण	सफ	ाप्त तिमाही के लिए	1	समाप्त वर	के लिए
ei.		31.03.2024 लेखा परीचित	31,12,2023 अलेखा परीक्षित	31,03,2023 लेखा परीक्षित	31,03,2024 लेखा परीक्षित	31.03.2023 लेखा परीवित
1	परिचालनों से कुल आय	23,791,22	14,791,60	1,060.62	40,172.53	4,696,04
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट	300000000000000000000000000000000000000			0.000.000.000	
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	23,040,01	8,247,75	(6,561,86)	29,201,45	(10,015,51
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)		9300000		0000000	\$240 miles
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	23,040.01	8,247.75	(6,561.86)	29,201.45	(19,478.66
4	करोपरांत जयि के लिए नियस लाम/(हानि)			to make and		
	(विकिन्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	20,412,65	6,422.43	(6,591.86)	24,743.77	(19,478.66
5	इक्विटी शेवर पूँजी	1,199,84	1,199.84	1,199.84	1,199,84	1,199,84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/					
	तथा अन्य पारपूरा आय (करापरात) क लिए लाग/ (हानि) सम्मिलित)	20,439,34	6,422,43	(6,561.69)	24.775.45	(19,448.49
7	प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/- प्रत्येक)	20/935/34	0,422,43	(6,561,69)	24,170,40	(18/440/48
'	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)					
	- बेसिक	17.01	5.35	(5.49)	20.63	(16.23)
	- बाइलुटेड	17.01	5.35	(5.49)	20.63	(16.23)
	31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमार्ह			4	वित्तीय परिणाम	
1	परिवालनों से कल आप	24.969.49	17.087.57	1,177.88	43,837.65	8 482 59
2	अविष के लिए नियल लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट	24,505,45	17,000,07	1,177.00	43,031,03	0,402,00
-	तथा/अथवा असाधारण मदौ से पहले)	23.198.72	8.142.94	(761.77)	28.992.95	(1,474.55
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाम/(हानि)	20,100.72	0,142.04	(101.61)	20,892.80	(1,474.00)
0	(विक्रिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	22,924,40	8,142,94	(791,77)	28,718,64	(10,937,70
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाम/(हानि)	22,324,40	0,142,04	1,01,117	20,7103,74	(10,007.70
9	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण गर्दों के उपरांत)	20,271,86	6,317,62	(692,49)	23,350,04	(11,733,80
5	इक्विटी शेवर पूँजी	1,199,84	1,199.84	1,199.84	1,199,84	1,199,84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि					
	(करोपरात) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरात)		100,000,000			
	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित)	20,297.31	6,317.62	(662.89)	23,375.49	(11,704.20
7	प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/- प्रत्येक)	200000000000000000000000000000000000000	20000000		200000000000000000000000000000000000000	
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)					
	- बेशिक	16,90	5,27	(0.58)	19,46	(9.78)
	- बाइल्टेंब	16,90	5,27	(0.58)	19,46	(9.78)

बीएसई तिमिटेंद्र तथा नेशनत स्टॉक एक्सबॅज ऑक इंदिया तिमिटेंद्र के पास दावर 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष (एकल तथा समेकित) तिए विस्तृत वितीय परिणामों का सारांश है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष के वितीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सबेंजों की

वेबसाइटों यांनी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in पर उपलब्ध है। लेखा परीक्षक कमिटी हारा 31 मार्च, 2024 को समाज चतुर्य विमाही तथा वर्ष के लिए ऊपर उल्लेखित लेखा परीक्षित वितीय परिणामों (एकल एवं समेकित) की समीक्षा की गई है एवं उनकी सिकारिसों पर 30 मई, 2024 को संबार के ऑडियों विजूलत साधनों के जरिए आयोजित निदेशक मंतल द्वारा अपनी संबद्ध को समझा का गर्ड है ऐने जनमा प्राप्त है। बैठक में उसे अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त परिचामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित आईएनडी एएस में उल्लेखित अनुमोदित तथा परिमापन सिद्धांतों के साथ पठित

उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों तथा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा शिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। संबंधित परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी **www.vipulgroup.i**n तथा बीएसई तिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट बानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से विपुल लिमिटेव

हस्ता/-

तारीख: 30 मई, 2024 थान : गुरुग्राम

पुनीत बेरीवाला प्रबंधक निदेशक, सीईओ एवं सीएफओ

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएनः L21012DL1972PLC279773

पंजीकृत कार्यालयः 4830/24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाइट: www.skpmil.com, ई-मेल: info@skpmil.com फोन नं. : 91-11-46263200 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित क्तिय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 को समाप्त तिमाही (लेखापचिस्रित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	प्रवालनों से कुल आय	3,545.05	14,543.57	4,431.83	17,817.45
2	अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(52.27)	65.36	122.31	325.96
3	कर पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाग/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(52.27)	64.38	162.89	1,658.35
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(22.96)	38.04	71.86	1,256.22
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर परचात) और अन्य समग्र आय (कर परचात) शामिल]	(14.65)	38.20	69.17	1,257.09
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17
7	आरक्षित निष्धि (पुनर्मूत्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार	1917 (As at 31.0	1. 4.7. 12.4.2		79.42 1.03.2023)
8	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ७. १०/— प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) (क) बेरिक (१ में) (ख) डायल्यूटेड (१ में)	(0.17) (0.17)	0.28 0.28	0.53 0.53	9.29 9.29

नोट :

ये परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन तैयार किए गए हैं।

ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दाकित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 यथासंशोधित के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सवेंजों में पेश किए 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीवित वितीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।

निदेशक गंडल के लिए एवं उन्हीं के लिए श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेर ारेन्द्र कुमार पसारी

डीआईएन - 00101426

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 मई, 2024

# HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

CIN:L74899DL1988PL031191

B-2/8, Safdarjung Enclave, Delhi -110029, Tel 41650347, Fax no. 011-26191358,

				Standalone					Consolidated			
S.	Particulars	Quarter Ended		Year Ende	d		Quarter Ende	d	Year Ende	d		
No.		31-03-24 Audited	31-12-23 Unaudited	31-03-23 Audited	31-03-24 Audited	31-03-23 Audited	31-03-24 Audited	31-12-23 Unaudited	31-03-23 Audited	31-03-24 Audited	31-03-23 Audited	
1	Total Income from operations (net)	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503	7,195	7,116	5,488	30,717	32,503	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	418	714	57	2,185	583	418	714	57	2,185	583	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	376	455	103	1,641	487	376	455	103	1,641	487	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	376	455	103	1,641	487						
6	Equity Share Capital	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)											
55	Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	
	(b) Diluted	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	7.35	8.89	2.01	32.05	9.51	

- The Standalone results for the quarter and year ended 31 March 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings
- The figures of the last quarter that ended 31" March 2024 and corresponding quarter that ended 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the fu
- financial year and published year-to-date figures up to the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review by the statutory auditors. These Standalone results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the relevant rules issued thereunder, other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the

presentation and disclosure requirements of regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). (Amit Kumar) Director Place : Delhi DIN- 06902856 Date: 30-05-2024

ऋण वसली अधिकरण—। दिल्ली यतुर्य तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 OA 1013/2022

एमडीएफसी वैंक कावेदक विकट्ट नैसर्स एमीडी कैशन आहुबेट लिनिटेड प्रविवादी अंदि, (1) वैक्त एमेडी कैकन अववेट लिनिटेड, 7022/1 एमपीएल ने 483 मेन रोड यहात राजेश्वरी नेडक नगर जस्ट बिन के पास नई दिल्ली 110005 जसर परिकर, दिल्ली। (2) की संजय कबड़, बी-005, प्लॉट नं-त, करनावनी क्यार्टमेंट सेक्टर ६ द्वारका नई दिल्ली 110075 (3) भी स्केस कुमार, पर्तेट नंबर 39-ए, जैजीए फर्डेट्स सोक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली 110075

जबकि जर्ज्युक्त नागित आवेदक ने आपके विरुद्ध **र. 7,78,80,229.25 (रुपये सात करोड अट्टडकर लाख अस्सी** ज्ञान उच्युक्त लाला आवदक न ज्ञापक निरुद्ध के 7,78,80,229.26 (स्पर्य साध कराई बद्दक्कर तास अस्ता हजार यो से पनतीस एक पाद पायीस पैसे साथे भी वज्ज्जित के स्थान के उस जानिक प्राचित के लिए दिसा दिया गया है कि आका सामान रही के सुवना में मान निकार नहीं है। इसीतियों, यह सूचना विद्यापन हात प्रसारित की जा रही हैं। किसमें आपको 1600,2024 को प्राच: 19230 को एकसी पिलदूतर के समय उन्होंकर होने का निर्देश पिया जाता है। (प्राप्तिक जानकरी के जिए कृषका क्षेत्रपटी की वैनसाइट www.stribunal.gov.in देशे। फोन नंबर : 011-23748473, कृष्या प्यान दें कि इस अधिकरम के समया उन्होंकर दिवस पर आपके उनहेंक्या न होने की विश्वति में कहा की एकसाई कर दी जानेगी और अध्यक्ती अनकरिकति में निर्मत के किया जानेगा।

011—23748473, कृपया ध्यान में कि इस अधिकरण के समझ जपर्युक्त दिवस पर आपके जपरिका न होने की खिली में ताय की शुक्कई कर मी ध्यायेगी और अस्पत्ती अनुवरिक्ति में निर्मन के सिता ध्यायेगा। अनवस्त्र सन्ते हुने महामारी की स्थिति के कारण, सभी प्रकरणों को सैकियों कॉओसिन के मान्यम से छठावा ध्यायेगा और इस धरेरत के खिनी के कारण में अधिकां कॉओसिन के मान्यम से छठावा ध्यायेगा और इस धरेरत के खिने > () चुने अधिकराओं / बादियों को सिक्सों कंप्रकरण स्थायेगा की सुक्ता है। सिक्सों कंप्रकरण में सुक्ता की स्थायेगा की प्रकरणों की सुक्ताई की आगाणी शिवि के तिए मीटिंग आईकी और 'धारकर्ड' खर्कानिक सुक्ता शिक्स के अंतर्गत की सामारी शिवि के तिए मीटिंग आईकी और अपनती शिवि से एक दिन धर्म से अध्याप की सामारी किया के सिक्सोंग पर सामारी किया से अध्याप स्थायेगा स्थिति से एक दिन धर्म की है। किया भी आखाण स्थित के सिक्सोंग / बादियान संबंधित अधिकरारों से फीन नंतर था।—23748473 पर संबंध कर सकते हैं। साम ध्या मान्यस्त स्थायेगा स्थ

इस अधिकरण के सहायक रजिस्ट्रार के आदेशानुसार

आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड आनंद राठी एक्सप्रेस जोन, ए विंग, आठवीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगाँव (ई), मुम्बई 400 063 मारत मैसर्स एस एव ए इंटरप्राइजेज संदर्भ सं.: एपीपीएल00005358

बुंकि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभृतिकरण एवं विशीव संपरि पुनर्गटन तथा प्रतिपृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) के अधीन तथ प्रतिभूति हित (प्रचर्तन) निवम, 2002 के निवम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों वे प्रयोग के तहत प्रतिष्कृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियाँ के पुनर्गतन तथा प्रतिषृति दित प्रवर्गन अधिनियम, 2002 की पारा 13 की उप-पारा 2 के अधीन मांग सूचना (विवरण नीचे सारणी में विशेष रूप से उदलेखित हैं, जिसे बाद में मांग सूचना कहा गया है) जारी किया गया था, जिसमें कर्जदार (विवरण नीचे सारणी में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसे बाद में कर्जदार कहा गया है) को मांग सूचना की प्राप्ति की तारीक्ष से 60 दिने के अंदर मांग सूजना में उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की अनुसंग्रतीय दर पर आये एवं श्रविष्य के व्याज की रकम के साथ एवारजीएफएल द्वारा गांग सूजना की तारीख से गुगतान की तारीख तथा/व्याग बसूली की तारीख तक लागत एवं मुल्क तथा अन्य भुगतेय रकन (यदि कोई हो) **(जिसे वहां बाद में वकाया रक** कहा गया है) चुकता करने को कहा गया है।

सह-कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम का भुनतान करने में असकल होने के कारण एतद्द्वा विशेष रूप से यहां नीचे उल्लेखित कर्जदार एवं जन सामारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिपृत्तिकरण तथ वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन उत्था प्रतिभृति हित प्रकॉन अधिनियम, 2002 की बारा 13 की उप बारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्जन) नियम, 2002 के निवम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ह्योहस्तासरी द्वारा वहां नीचे विशेष रूप से उल्लेखित वारीख को निम्नलिखित उल्लेखित सम्परि/प्रत्याभ् शस्तियों (जैसा की गांग सुक्ता के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। विशेष तीर पर कर्जदार तथा सह-कर्जदार तथा जाम तीर पर जन खायारण को एतदुद्वारा खतर्क किया जात है कि इस संपत्ति/अत्यापूत जास्तियों से संबंधित कोई भी सीदा न करें तथा इस संपत्ति/अत्यापूत जास्तियों से सर्वाचित कोई भी सीदा बनाया प्रकम (वहां नीचे विशेष रूप से अल्लेडिज है) के साथ पर व्याज के कनुबंधकीय दर पर आगे एवं पविष्य के ब्याज की रकम के साथ एआरजीएकएल द्वारा गुगतान की उारीस त्वाह्याद्रकाचा वसूली की तारीचा तक लागत एवं शुल्क तथा अन्य मुक्तेय रकम (बदि कोई हो) के लिए आनंद **राती ग्लोबल फाइर्नेस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा। प्रत्यामूत सम्परियों को मुक्त कराने वे उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओ जनर्षित किया जाता है।

कर्जदार (l) का नाम एवं पताः 1) मैसर्स एस एव ए इंटरप्राइजेज (कर्जदार), प्लॉट नं. 1, राजेन्द्र नगर इंदरिटयल एरिया. मोहन नगर. गाजियाबाद: 201005

सह-कर्जदार (1) का नाम एवं पताः (1) मैसर्स शशी शर्मा (सह-कर्जदार), 5/15सी, दूसरी मंजिल, प्रचलित स्व केलोनी साहिताबाद, गावियाबाद, उप 201005, 2) श्री सुधीर आर्था (सङ्कर्तावर), 5/15सी, दूसरी मंजिल, धनपत चय कॅलोनी साहिताबाद, गावियाबाद, उप 201005, 3) श्री अभिनी कुगार सर्वा (शह-कर्जवार), 5/15सी, दूसरी मंजिल, धनपत राय कॉलोनी शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उप्र-201005

यांग सूचना के अनुसार बकाया रकम साथ में लागू आगे	आरओआई	13,00%
के ब्याज: ७. 69,13,382/- (रुपये जनहत्तर लाख तेरह	वकाया मुलचन	6,558,430
हजार तीन सौ बवासी मात्र)	लंबित ईएमआई रकम	299,075
मांग सूचना की तारीक्षः 14 मार्च, 2024	संदित सर्वाप का ब्वाज	11,842
ऋण अनुनंध सं.: एपीपीएल00005358	वैद्यानिक शुल्क	7,600
कन्ना की तारीखः 30 गई, 2024	अविशोध्य व्याज	25,815
	ईएनआई बाउंस	10,620
	कुल बकागा	69,13,382

प्रत्<mark>वाभूत सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति का पताः</mark> धनपत राय कॉलोनी, ग्राम पर्शुका परगना लोनी गाजियाबाद करवील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005 में स्थित सरक्षा नं. 1814 एवं 1815 में से, प्लॉट नं. 5/15सी एवं 5/15सी का रामार्थ भूतल एवं दूसरी मंजिल साथ में छत का अधिकार, पूर्व- प्लॉट नं. 5/15सी, पश्चिमः- प्लॉट नं. 5/15ई, खरारः- 10.5 फीट चीड़ी सडक, दक्षिणः- ऋन्य की भूमि। हस्ता/- आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड दिनांक: 30 मई, 2024 स्थानः दिल्ली

> खबरें आपकी तरक्की की रपतार SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> > Insight Out

Extract for Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Statemer of Acme Resources Limited for Quarter and Year ended 31st March 2024 Registered office: 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

STANDALON

			DIMINE	WILLIA			CO1430	LIDMIED		
SI.	Particulars	QUARTE	R ENDED	YEAR	ENDED	QUARTE	RENDED	YEAR	ENDED	
No.		BLIB 2004 AUDITED	SLOS 2003 AUDITED	31.08.2024 Audited	31.45.2023 AUDITED	31.03.2824 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	31.03.2024 AUDITED	31.03.202 AUDITED	
1	Total Revenue			S	E. Commo	A. a.d		£		
	from Operations	144,32	2,010.58	706.16	2,706.27	184.18	2,061.42	990.37	2,901.3	
2	Net Profit for the									
	period (before Tax,									
	Exceptional and/or									
	Extraordinary items)	(217.10)	1,185.62	16.81	1,466.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.7	
3	Net Profit for the	2000	200000	25000	0.000000		20000000	14.520.000	23000000	
	period before tax									
	(after Exceptional									
	and/or Extraordinary									
	items)	(217.10)	1,185,62	16.81	1,465.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.7	
4	Net Profit for the				300000				. 44000	
	period after tax (after									
	Exceptional and/or	200	1000		12000		133955		1000	
	Extraordinary items)	(160:55)	916.41	(12.89)	1,110.06	(144.08)	945.04	171.03	1,242.1	
5	Total Comprehensive									
	Income for the period									
	[Comprising Profit/									
	(Lass) for the period									
	(after tax) and Other									
	Comprehensive				77.22					
	Income (after tax)]				1,110,06		7		1,242.14	
6	Equity Share Capital	2,574.40	2,5/4.40	2,574.40	2,574.40	2,5/4,40	2,574.40	2,574.40	Z,5/4.4	
ſ	Reserves (excluding									
	Revaluation Reserve) as shown in the									
	Audited Balance Sheet									
	of the previous year			4,318.13	4,331,02			10,154.06	9,983.B	
8	Net Worth			8,892.53				12,728.46	77.7	
9	Earnings Per Share		'	A. 60 C. A.	0,564,46			-2.720.49	12,001.4	
-	(for continuing and									
	disportinued operations) -									
	Basic:	(0.62)	3.56	(0.05)	4.31	(0.56)	3.67	0.66	4.8	
	Diluted:	(0.62)	3.56	(0.05)	4.31	(0.56)	3,67	0.66	4.83	

- The working results for the Quarter Ended March 31, 2024 and Quarter Ended March 31,2023 have been arrived at after considering provisions for Non-Performing and Standard Assets as per Reserve Bank of India
- approved by the Board of Directors in their meeting held on 29/05/2024 The above results pertain to Acme Resources Limited on Standalone and
- properties & shares are included under 'Property/Share trading'.
- Inventory, having book value of Rs. 543.92 lakh has been provisionally attached by Income Tax Department under section 132(98) of the Incom Tax Act 1961. Accordingly the Company is prohibited from transferring. creating any charge on or parting with possession (by way of sale, mortgage, gift exchange or any other mode of transfer whatsoever) of the properties in favour of any other person
- The above is an extract of the detailed format of financial results for guarter and year ended on 31st March 2024 filed with Stock Exchanges under 31,2024 are available on BSE (www.bseindia.com), CSE (www.cse india.com) and the website of the Company (www.acmeresources.in).

B FINSERV बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

FINSERSY विज्ञान होंडीसी फाइनेस क्रियान तर प्रमुख्य कर क्रियान क्रिया

विभिन्न 202 और एक्ट निम्नों के कनुसार कर तिया गया है। प्रतिकृत परिसर्वाधि को बीएसरम्पत को देश ऋग कक्स, जायू आज, सुरूक और तामारा उसिर की वसूत्रों के तिए बोली लगाकर सर्वाधिक नीतामी के मान्यम से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। प्रतिकृत परिसंधीत को 66—जुलाई—3024 को बेचा जा रहा है और बोलीवान प्रतिपृति क्षित (कार्गन) नियमकर्ती (वहां इसमें वणसंत नियमकर्ती के सम में संवर्षित) के नियम संस्था व न 9 के खेतरीत तथ नीचे विनिर्देश नियमों एवं कर्ती पर **"मेसी है जाते हैं, "पैसी है जो हैं, "जहां जो कुछ से हैं और "मिना संसायन सम्यर"** पर आयोजित निया जायेगा :

खाता विवरण / जपारकर्ता (ओ) एवं यारंटर(सें) के नाम एवं कते	ज्या ह जा है, ज्या था पुरू में है जार हम्म क्यानन कागर 1. ई-नीकामें की सिंग एवं चल्य 2. बराव चना की व्यक्ति सिंग 3. बंदरित निरोधन की सिंग एवं चनव 4. संपत्ति विरोधन की	आरवित मूल्य     संपत्ति की घराज     बोली वृद्धि
	1) ई-पीकापी विभि :- 5-पुलाई-2024 गया. 1100 से दोप	आरक्षित मत्य : रू १९०

1. **युनीत वर्षा (ज्यारकरा)** प्लॉट नंबर एक 24 पतेट नंबर एसएक-02, 1) ई-जीकाणी सिवि := 5-जुनाई-2024 गव्या 1120 से धीम आरंधित मून्य : 0. 19,00,000 /1220 बचे के ग्राम 5 जिस्द के व्यापित विश्वास के साम 1
2) केव्यूंसी के साम इंड्यूजी कमा करने जो संविध सिवि :
--जुलाई-2024 को साम 509 बचे (आईएसडी) कहा, 2) विश्वास के साम 509 को (आईएसडी) के बीम 14) अग्रमा श्रीकी क्या स्विध मून्य का 10% विश्वास : कोटी का वह पूरा दिस्सा करेट नंबर स्थाप्ट-2 दुसरी मानित मून्य का 10% क्या कर एस दिस्सा करेट नंबर स्थाप्ट-2 दुसरी मानित मून्य का 10% क्या स्वाप्ट के 10% क्या स्वाप्ट का 10% का द्वितीय तल नेद विहार लोनी देहात. गाधिवाबाद, उत्तर प्रदेश-201902 2 कमलेक देवी (सह-उपारकर्ती) चला की कोडी के पास, जनस्टेडी (80) जीद, हरिवामा-126102 **कुत बकाया** : रू. 27,27,504/-ताईस लाख सताईस हजार पांच सी प्रदेश -20102, पूर्व प्रवीट नंबर एक-23, पश्चिमः रोत 800 मीटर कीडी, जार प्रतीट नंबर एक-25, दक्षिणः पॉट नंबर एक-23 वार रुपये मात्र) 23/06/2024 से अर्कित मविष्य के ब्याज और तुत्क के साथ

東可

H401H1

- स्वर्जनिक फीसामी के निका और सर्वे इस प्रकार है:

  सार्वजनिक गीसामी 'जैसी है जहा है, जैसी है जो है और बिना किसी संसाधन आधार' पर आयोजित की जा रही है और इसे बजाज हारासिंग पहलेस लिनिटेट को इक्ता वा ज्वारात सभी मीजूदा और पविष्य के ऋषणारों के साथ बेचा जा रहा है।

  प्रतिमृत विस्तारी आरोजित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।

  गीसामी बिकी हूं-गीसामी चोटेस के माध्यम से ऑनसाइन होगी।

- नालामा विकाद हु-नालाम पाटल के माध्यम से अनेलाइन हाया।
   ई-निलामी, पीटल https://bankauctions.in के माध्यम से 5/जुलाई/2024 को 1130 से 1230 करे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित कराः विस्ताद के साथ होती।
   विस्तुत नियमों एवं शती के लिये कृषया कंपनी के वेबसाइट यूआरएल https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें या किसी में एक्टीकरण के लिए कृष्या प्राधिकृत अधिकारी से साथक करें।
   टिलांक 33/05/2024, स्थात : दिल्ली/दलक्रियर

#### ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड CIN No: L74899DL1984PLC018268

पंजीकृत ऑफिस : एससीओ 98ए, दूसरा तल, नरेंद्र ऐस्टट, तैमूर नगर, नई दिल्ली –110065 दुरभाष : 011-41064256, फेक्स सं: 011-26322664, ई-मेल : cs@oswaloverseasitd.com, वेबसाइट : www.oswaloverseasitd.com

			A COMPANY OF THE SECOND	1100140015000	(	रु. लाखों में)
क. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को सनाप्त तिमाही	3 1. 12.2023 को सनाप्त तिमाही	31,03,2024 को समान्त वर्षिक	31,03,2023 को समान्त वर्षिक
		(अंकेशित)	(अंकेधित)	(अनअंकेबित)	(अंकेबित)	(अंकेबित)
1.	परिचालनों से कुल आय (निवल)	3778.95	6849.44	6215.81	15208.29	21016.27
2.	कर पश्चात साधारण गतिविधियों से निवल लाम/(हानि) (असाधारण नदों से पूर्व)	112.35	1475.06	294.06	-510.59	579.52
3.	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) कर पश्चात (असाधारण नदों के पश्चात)	342.45	972.10	259.81	-544.84	74.53
4.	अन्य समेकित आय	0.30	0.13	0.78	3.05	2.32
5.	निवल लाभ/हानि	342.74	972.23	260.59	-541.79	76.85
6.	इक्विटी शेवर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646,11	646.11
7.	रु. 5/— प्रत्येक के इविवटी शेयर	12922100	12922100	12922100	12922100	12922100
8.	आरवित (पुनर्मृत्यांकन भंडार को छोड़कर, जैसा कि बैलंस शीट में दिखाया गया है)				-2062.35	-1518.03
9.	प्रति शेवर आय (असाधारण मर्द्रींसे पूर्व) (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक के) (अ) मूल	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59
	(ब) तनुकृत	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59

उपर्युक्त सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विरुत्त प्रारूप का एक अंश है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइड और कंपनी की वेबसाइट (www.oswaloverseasitd.com) पर उपलब्ध है। उपरोक्त परिचामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में

चीनी उद्योग एक मीसमी उद्योग है जहां पेराई सामान्य रूप से नवंबर और अप्रैल के बीच की अवधि के दौरान होती है, जबकि बिक्री पूरे वर्ष वितरित की जाती है। कंपनी का प्रदर्शन तिमाही दर तिमाही बदलता रहता है।

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश २०१९ द्वारा यथा घोषित आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १<mark>१५BAA</mark> के प्रावधानों के अनुसरण में और 11 विसंबर, 2019 को अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में प्रख्यापित किया गया है, घरेलू कंपनियां के पास उक्त धारा में निर्दिष्ट कुछ छूटों /कटौतियों ('नई कर व्यवस्था') को छोड़कर रियायती दर पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प है। नई कर व्यवस्था के संभावित प्रभाव के आकलन के आधार पर, कंपनी ने मौजूदा कर संरचना को तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक कि कुछ कटौतियां उपलब्ध नहीं हो जाती हैं और संवित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट काफी हद तक समाप्त हो जाता है और उसके बाद ऊपर बताए गए अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना जाता है।

प्रति ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड हस्ता./ परमजीत सिंह (प्रबंध निदेशक) डीआईएन: 00313352

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 30.05.2024

CONSOLIDATED

			PIMIAL	MICOIL		-	COMPO	UDALED				
SI.	Particulars	QUARTE	RENDED	YEAR	ENDED	QUARTE	R ENDED	YEAR ENDED				
No.	Date Comment	BLIB 2004 AUDITED	BLOS 2003 AUDITED	31.08.2024 AUDITED	31.45.2023 AUDITED	31.03.2824 AUDITED	31.03.2023 AUDITED	31.03.2024 AUDITED	31.03.2023 AUDITED			
1	Total Revenue	1			E. Common	A. a.d		£				
	from Operations	144.32	2,010.58	706.16	2,706.27	184.18	2,061.42	990.37	2,901.37			
2	Net Profit for the											
	period (before Tax,											
	Exceptional and/or											
	Extraordinary items)	(217.10)	1,185.62	16.61	1,466.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.77			
3	Net Profit for the	2000	2000	2000	0.9929	01/10/00/00	2105000	6.500000	0.565.6.00			
	period before tax											
	(after Exceptional											
	and/or Extraordinary											
	items)	(217.10)	1,185.62	16.81	1,465.38	(196.82)	1,230.76	263.59	1,651.77			
4	Net Profit for the		2000		AC-00000	1000000	0.0000000000000000000000000000000000000		.42.5			
	period after tax (after											
	Exceptional and/or				11000	10000	20000					
	Extraordinary items)	(160.55)	916.41	(12.89)	1,110.06	(144.08)	945.04	171.03	1,242.14			
5	Total Comprehensive											
	Income for the period											
	[Comprising Profit/											
	(Lass) for the period											
	(after tax) and Other											
	Comprehensive					2000000						
	Income (after tax)]	(160.55)	916.41	(12.89)	1,110,06	(144.08)	945.04	171.03	1,242.14			
6	Equity Share Capital	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40			
7	Reserves (excluding											
	Revaluation Reserve)											
	as shown in the											
	Audited Balance Sheet											
	of the previous year			4,318.13	4,331.02			10,154.06	9,983.04			
8	Net Worth	-	-	6,862.53	6,965.42	-		12,728.46	12,557.44			
9	Earnings Per Share				1111000000000							
	(for continuing and											
	discontinued operations) -	10.00			92			1	7.5			
	Basic:	(0.62)	0.55	(0.05)	4.31	(0.56)	3.67	0.66	4.82			
	Diluted:	(0.62)	3.56	(0.05)	4.31	(0.56).	3,67	0.66	4.82			

guidelines, provision for taxes and other necessary provisions.

- The above results have been reviewed by the audit committee a
- 3 NBFC Business is representing the financing business and sales/purchase of
- Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter and year ended March

Director

मवाना सुगर्स लिमिटेड CIN: L74100DL1961PLC003413

फंजीकृत कार्यालयः पांचवी मंजिल, कृति महल, 19, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125 दूरभाष नं.: 91-11-25739103, क्रेक्स नं.: 91-11-25743659 nawanasugars.com, बेबसाइटः www.maw ई-मेल पता तथा अन्य जानकारी के अद्यतन के लिए सदस्यों को सूचना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी साधारण परिपन्न सं. 14/2020 दिनांव 08 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपन्न सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, परिपन्न सं. 39 2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, परिपत्र सं. 20/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, परिपन्न सं, 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथ परिपत्र सं. 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 (जिसे सामृहिक रूप । 'एमसीए परिषत्र' कहा गया है) तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिषत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 सेबी/एचओ, सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओडीडीएचएस, गी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एवओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर 2023/4, दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा 25 सितम्बर, 2023 क्रमशः (जिसे 'सेबी परिपन्न' कह गया है) के अनुसार कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सहस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधानों ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक साधारण ।म बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम' था एमसीए परिपन्न तथा सेवी परिपन्न के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आगामी 60वीं एजीएर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 6 जुलाई, 2024 को पूर्वाहन 11.00 बजे (भामास) वोजित होगी। अतएव, सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल

ऊपर उल्लेखित एमशीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार 60वीं एजीएम की सुबना के साथ वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल का पता कंपनी/पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट ('आरटीए') अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/डिपॉजिटरी के साथ **पंजीकृत हैं।** कंपनी पहले की तरह ही अपने सभी सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

हो सकते हैं एवं उसमें भाग ले सकते हैं।

भापका ईमेल जगर पहले से ही कंपनी/आरटीए जधवा बीपी/विधोंजिटरी के साथ पहले ही पंजीकृत है, तो एजीएम की सूचना के साथ यित वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगडन का विवरण आपके पंजीकत ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। अगर आपका ईमेर आईडी कंपनी/आरटीए अथवा डीपी/डिपोंजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सूचना, वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन का ब्यौरा प्राप्त करने वे लिए अपने ईमेल पता के पंजीयन के लिए कृपया नीचे उल्लेखित निर्देशावलियों का अनुसरण करें। ई मेल पता तथा बैंक खाता के पंजीकरण/अद्यतन का विवरण:

कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, पता टी-34, दूसरी भौतिक प्रारूप मंजिल, ओखला इंडस्टियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली 110 020 के पास में धारण मलीमांति भरे हुए प्रपन्न सं. आईएसआए-1 पर अनुरोध मेजें, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com के अधीन इंवेस्टर रिलेशन टैव के साथ आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com के अधीन बाउनलोड टैब से बाउनलोड किया जा सकता है। आप दिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रपत्र सं. आईएसआर-1 आरटीए के ईमेल आईडी investor@masserv.com पर कंपनी के corporate@mawana sugars.com पर उसकी प्रतिलिपि भेज सकते हैं।

कृपया अपने डीपी से सम्पर्क करें एवं डीपी की सलाह पर प्रक्रिया के विमेट प्रारूप में अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाते के विवरण का पंजीयन कराएं। धारण रहने पर ई-वोटिंग जानकारी

ानी अपने शेयरधारकों को एनएसाढीएल द्वारा व्यवस्था की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवा के माध्य से रिमोट ई-वोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को भी इलेक्टॉनिक वोटिंग की सर्विधा प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित विवरण एजीएम की सचना में प्रदान की जाएगी तथा कंपनी की वेबसाइट यानी www.mawanasugars.com पर भी उपलब्ध

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com तथा बीएसई लिगिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम के उद्देश्य के लिएवीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

किसी भी तरह के प्रश्न के लिए सदस्यगण कंपनी को प्रतिलिपि विन्हित कर ऊपर उल्लेखित पत तथा ई-मेल आईडी पर आरटीए को लिख अथवा सम्पर्क कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सेबी परिपन्न दिनांक 03/11/2021 एवं दिनांक 16/03/2023 के अनुसार भी लभांशों का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किया जाएगा। अगर आपने अपने वैंक वे व्योरे का अद्यतन नहीं कराया है, तो कृपया उसे दिनांक 29/06/2024 अथवा उससे पहले अद्यतन करवा तें। अगर आपका शेयर भौतिक प्रारूप में धारण है, तो कृपया आरटीए के पास मूल रद चेक के साथ आईएसआर-1 भर कर अपना वैक का ब्यीरा प्रदान करें। अगर आपका शेयर डिमैट प्रारूप में धारण है, तो कृपया अपने ठीपी के साथ अपने बैंक का ब्यौरा का अद्यतन कराएं कृते मवाना सुगर्स लिमिटेर

(अशोक कुमार शुक्ला

धान : नई दिल्ली एसीएस: 29673 दिनांक: 30.05.2024

Date: 29/05/2024

M. S. Bagla Managing Directo DIN- 01425646

For and on behalf of the Board